



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

16 अग्रहायण 1944 (श0)  
(सं0 पटना 1059) पटना, बुधवार, 7 दिसम्बर, 2022

---

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना  
6 दिसम्बर, 2022

सं० का0-1/वि0मं0(महानुभाव)-08-03/2021-1001—उप सचिव, बिहार विधान परिषद् के ज्ञापक-1958 (1) वि0प0, दिनांक-21.11.2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉ० संजय जायसवाल ने डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल, माननीय स0वि0प0 को बिहार विधान परिषद् में मुख्य सचेतक, विरोधी दल के पद पर किये गए मनोनयन को माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् द्वारा दिनांक-21.11.2022 के प्रभाव से मान्यता प्रदान की गयी है, जिसे बिहार विधान परिषद् की अधिसूचना संख्या-1957 (1) वि0प0 दिनांक 21.11.2022 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

2. बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम-3 (ख) के प्रावधानों के तहत डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल, स0वि0प0 को दिनांक 21.11.2022 के प्रभाव से सरकार के राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें देय होंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उदय प्रताप सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1059-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>